

भारत सरकार  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2721

जिसका उत्तर दिनांक 12.12.2019 को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यूरेनियम के अन्वेषण पर रोक लगाना

2721. श्री धर्मपुरी श्रीनिवास :

श्री टी. जी. वेंकटेश :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले और तेलंगाना राज्य में हो रहे यूरेनियम खनन के विरुद्ध गंभीर विरोध प्रदर्शन हो रहा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

- (क) जी, हाँ । परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम, यूरेनियम तथा कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) द्वारा आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में कोई
- (ख) यूरेनियम खनन गतिविधि नहीं की जा रही है ।

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी), परमाणु ऊर्जा विभाग की एक संघटक इकाई है, जिसका अधिदेश, देश में यूरेनियम संसाधनों की पहचान करना, उनका मूल्यांकन करना और संवर्धन करना है । हाल ही में, एएमडी द्वारा नांदयाल-रुद्रावरम - अलागड्डा क्षेत्र, कुरनूल जिला, आंध्र प्रदेश; कसूरीगुड्डा - पी.के. पाडु क्षेत्र, एसपीएसआर नेल्लूर जिला, आंध्र प्रदेश और मस्तीपुरम क्षेत्र, वानपरती जिला, तेलंगाना में यूरेनियम के लिए की जा रही अन्वेषण गतिविधियों को स्थानीय जनता द्वारा किए जा रहे विरोध के कारण रोक दिया गया है । वर्तमान में, स्थानीय प्रशासन के निदेशानुसार, इन क्षेत्रों में ड्रिलिंग रिग्स को हटा लिया गया है और अन्वेषक ड्रिलिंग कार्य को रोक दिया गया है ।

- (ग) निदेशक, एएमडी ने कुरनूल और एसपीएसआर नेल्लूर जिला, आंध्र प्रदेश और वानपरती जिला, तथा तेलंगाना के जिला कलेक्टरों से अनुरोध किया है कि एएमडी द्वारा यूरेनियम अन्वेषण जारी रखे जाने के लिए सहयोग करें । आगे, एएमडी के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम अन्वेषण जारी रखने के लिए सहयोग प्राप्त करने हेतु, दिनांक 23-11-2019 को जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (डीएम), कुरनूल के साथ बैठक की, जिसमें उप निदेशक, भूविज्ञान एवं खान निदेशालय, आंध्र प्रदेश सरकार भी मौजूद थे । स्थानीय प्रशासन ने एएमडी की अन्वेषण गतिविधियों के लिए अपना सहयोग देने का आश्वासन दिया है । डीएम, कुरनूल ने संबंधित तहसीलदारों और वीआरओ को पत्र भी भेजा है । डीएम, कुरनूल ने फिलहाल रुद्रावरम - अलागड्डा क्षेत्र में केवल सर्वेक्षण और मैपिंग कार्य करने और ड्रिलिंग न करने की सलाह एएमडी को दी है ।